



सामाजिक
न्याय केंद्र

और लायर्स
फॉर चेंज



सामाजिक न्याय के वकीलों की राष्ट्र स्तरिय बैठक

८ और ९ नवम्बर २०१४ • विश्व युवा केंद्र, नई दिल्ली

पंजीकरण के लिए आखिरी दिन २५ अक्टूबर २०१४

ऑनलाइन पंजीकरण के लिए कृपया इस लिंक को क्लिक करें <http://bit.ly/1t17Evn>

कार्यक्रम स्थल का पता विश्व युवा केंद्र, १, सर्कुलर रोड, चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन
के पास, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली - ११००२१

अधिक जानकारी के संपर्क nationalmeet2014@gmail.com | +91 9099989652

समाज और कानून के चौराहेपर खड़े सामाजिक न्याय के वकील की भूमिका अहम होती है। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ सामाजिक और कानूनी चुनौतियों का सामना करने तक सीमित नहीं है, बल्कि कानूनी प्रक्रियाओं का उपयुक्त इस्तेमाल कर, ऐसी सत्ता को चुनौती भी देनी है जो असमानता और भेदभाव को बढ़ावा देते हैं।

इस वजह से सामाजिक न्याय की वकालत एक ऐसी प्रथा है जिसमें अदालत के दायरे में कानूनी मार्गदर्शन देना काफी नहीं है। इसमें कानून का, सृजनात्मक और प्रभावपूर्ण ढंग से, समाज में ऐसी परिस्थितियां को पैदा करने के लिए इस्तेमाल करना है जहाँ वंचित वर्ग अपने अधिकारों की मांग कर सकें।

सामाजिक न्याय केंद्र इस दो दिवसीय राष्ट्रीयस्तर की मुलाकात के जरिये सामाजिक न्याय के वकील को साथ लाने की उम्मीद रखता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है जमीनी स्तर के परिपेक्ष और सामाजिक न्याय की वकालत को रुबरु करना, जिसमें शामिल है :

- सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर अधिकारों के दृष्टिकोण से चर्चा विवेचना
- इस क्षेत्र में कार्यरत लोगों के अनुभवों से मिली सीख और अनुभवों का आदान प्रदान
- राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे मंच की स्थापना करना जहाँ युवा सामाजिक न्याय से जुड़े वकील अपने अनुभवों को बाँट सकें, अपनी चिंताओं को व्यक्त कर सकें और अपनी संभावनाओं और क्षमताओं का अन्वेषण कर सकें

कार्यक्रम केन्द्रित है वर्तमान में बदलते कानून और नीतियाँ, खास कर समाजिक और आर्थिक अधिकार, नागरिक-राजनैतिक स्वतंत्रता और प्रक्रियात्मक कायदे संबंधित विशेष रूप से वंचित वर्गों के दृष्टिकोण से.

कार्यक्रम 3 श्रेणीओं में विभाजित होगा :

अलग अलग मुद्दों पर बदलते कानून एवं नीतियों के दृष्टिकोण से एक समझ बनाना

सामाजिक न्याय की वकालत से जुड़े लोगों के निजी अनुभवों का आदान प्रदान

सामाजिक बदलाव लाने की कोशिश में इस्तेमाल किये गए अलग अलग प्रक्रियाओं से संबंधित केस स्टडी

सहभागियों के लिए निर्देश

कार्यक्रम की शुरुआत ८ नवंबर २०१४ को सुबह ९ बजे होगी. सहभागियों से अनुरोध है के वह कार्यक्रम स्थल पर समय पर आ जाएँ.

कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पूर्व पंजीकरण करना अनिवार्य है. इच्छुक व्यक्ति अपना पंजीकरण २५ अक्टूबर २०१४ तक ऑनलाइन करा सकते हैं. ऑनलाइन पंजीयन के लिए इस लिंक <http://bit.ly/1t17Evn> पर मौजूद आवेदन को भरें.

आवश्यकता अनुसार, रहने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी. इसके लिए २५ अक्टूबर तक जानकारी दे ताकि आयोजन में सुविधा हो.

₹.७५० पंजीकरण फ़ीस डिमांड ड्राफ्ट द्वारा IDEAL CSJ के नाम भिजवाएं जो अहमदाबाद ब्रांच पर चुकाया जा सके. डिमांड ड्राफ्ट इस पते पर भिजवायें: Centre for Social Justice, C-106, Royal Chinmay Towers, Near Simandhar Tower, Bodakdev-380054, Ahmedabad, Gujarat, India

फ़ीस भरने में अगर कोई असुविधा महसूस हो रही हो तो इच्छुक व्यक्तियों की फ़ीस माफ़ की जा सकती है. इस हेतु अपने आवेदन के साथ फ़ीस माफ़ करने का अनुरोध भी भेजें.

आयोजन में हिस्सा लेने वाले व्यक्तियों को कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा. सहभागियों से अनुरोध है की प्रवेश करते समय अपना पहचान पत्र अपने साथ रखें.

सामाजिक न्याय केंद्र

सामाजिक न्याय केंद्र (IDEAL) की स्थापना १९९३ में हुई थी, सामाजिक न्याय केंद्र, कानून तक की पहुँच बनाने में और कानूनी सशक्तिकरण करने में कार्यरत रहा है।

सामाजिक न्याय केंद्र विभिन्न समुदायों के वकीलों और पेरालीगलों की क्षमता वर्धन करता है ताकि वह समुदाय में बदलाव लाने के लिए नेतृत्व ले, और खास कर कानूनी मार्गदर्शन केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से।

सामाजिक न्याय केंद्र ने कई ऐसे महत्वपूर्ण संस्थागत हस्तक्षेप किये हैं जैसे कानूनी परिवर्तन लाने की पहल, ज़मीनी स्तर की सक्रियता को साथ लाने की पहल, और नीति की रचना।

लॉयेर्स फॉर चेंज

ECONET की पहल लॉयेर्स फॉर चेंज fellowships एक क्षमता वर्धन के लिए बना fellowship programme है जो जिला न्यायलय में सामाजिक न्याय की वकालत से जुड़े युवा वकीलों की सहायता करता है।

ECONET एक ऐसी संस्था है जो आदिवासी और गैर-चारागाही घुमंतू आदिवासी समुदायों के साथ काम करती है। वानिकी और पर्यावरण से सम्बन्धी नैतिक मुद्दों पर इन समुदायों का, कानूनी जागरूकता और प्रशिक्षण व नेतृत्व विकास के द्वारा क्षमता वर्धन कर, उनकी दर्मियांगिरी को मज़बूत बनाती है।

सामाजिक न्याय केंद्र

C-106, Royal Chinmay Towers, Near Simandhar Tower, Bodakdev,
Ahmedabad-380054, Gujarat, India
[Phone: +91 7926854248]